



यह स्कूल वर्ष, सभी को स्वस्थ रहने के लिए कुछ सरल नियमों को याद रखना महत्वपूर्ण है! सभी की मदद से हम स्कूल में भी शांत रह सकते हैं!

नियमों का अनुपालन इस प्रकार है

तापमान को मापें!

यदि मेरे बच्चे का तापमान $37.5^{\circ}C$ से अधिक है, पिछले 3 दिनों में भी

अगर मेरे बच्चे में लक्षण हैं (बुखार, खांसी, जुकाम):

बच्चा स्कूल नहीं आता है!

माता-पिता डॉक्टर / बच्चों के चिकित्सक से संपर्क करें!

स्कूल को ठीक टेलीफोन नंबर दें! अगर यह बदल गया है तो स्कूल को सूचित करें! स्कूल के टेलीफोन कॉल का जवाब दें!

अगर मेरा बच्चा स्कूल में बीमार हो जाता है, स्कूल तुरंत इसे लेने के लिए माता-पिता से संपर्क करता है।

यदि माता-पिता नहीं मिलते हैं, तो स्कूल प्रोन्तो सकोर्सो से संपर्क करता है

स्कूल में:

दूसरों से कम से कम 1 मी की दूरी रखें।

अपने हाथों को अक्सर धोएं या उन्हें सैनिटाइज करें

यदि आप छींकते हैं तो अपना मुंह और नाक ढक लें

अपनी आंखों, मुंह और नाक को न छुएं

स्कूल में मास्क का उपयोग किया जाता है!

अगर मुझे स्कूल में शिक्षक के पास आकर बात करनी है?

माता-पिता केवल अपॉइंटमेंट लेकर स्कूल आते हैं!

केवल एक एक करके